



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

1 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 744 राँची, सोमवार,

23 सितम्बर, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----

#### अधिसूचना

11 सितम्बर, 2019

संख्या-14/जा०नि०-03-07/2017 का० 7320-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विभाग के पत्रांक-12817, दिनांक-17.11.2012 द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) की समेकित सूची परिचारित की गई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के क्रमांक-04 पर हिन्दी में “कुशवाहा (कोईरी)” तथा अंग्रेजी में “Kuswaha(Koiri)” अंकित है।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक-03/पि०व०आ०-17/2019/318/पि०, दिनांक-13.08.2019 द्वारा झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक 04 में दर्ज “कुशवाहा (कोईरी)” को रोमन लिपि के रूप में “Kuswaha (Koiri)/ Kushwaha (Koeri)” अंकित किया जाना प्रतिवेदित किया है। अतः पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-04 में दर्ज “कुशवाहा (कोईरी)” जाति का अंग्रेजी रूप “Kuswaha (Koiri)/ Kushwaha (Koeri)” के रूप में स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रकार पत्रांक-12817, दिनांक-17.11.2012 द्वारा परिचारित पत्र के साथ अनुलग्न अनुसूची-2 के क्रमांक-04 पर दर्ज "कुशवाहा (कोईरी)" की अंग्रेजी वर्तनी "Kuswaha (Koiri)/ Kushwaha (Koeri)" समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,  
सरकार के अवर सचिव।

-----